

श्री ऋषभदेव जिन पूजा (रानीला)  
Śrī Rṣabhadēva Jina Pūjā (Rānīlā)

कविश्री ताराचंद 'प्रेमी'

Kaviśrī Tārācanda'Prēmī

(चौबोला छंद)

(Caubōlā chanda)

हे कर्मभूमि के अधिनायक, जग-जन के जीवन-ज्योतिधाम ।  
वाणी में श्रुत-जिनवाणी का, झरता अविरल अमृत ललाम ॥  
हे परमशांत जिन वीतराग! दाता जग में अक्षय-विराम ।  
हे रानीला के ऋषभदेव! चरणों में हो शत-शत प्रणाम ॥  
हे कृपासिन्धु करुणानिधान, जीवन में समताभाव भरो ।  
आओ तिष्ठो मम अंतर में, हे आदि प्रभो! हे आदि प्रभो ॥

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र! अत्र अवतर! अवतर! संवौषट् (आह्वाननम्)!

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! (स्थापनम्)!

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)!

Hē karmabhūmi kē adhināyaka, jaga-jana kē jīvana-jyōtidhāma ।

Vāṇī mēm śruta-jinavāṇī kā, jharatā avirala amṛta lalāma ॥

Hē paramaśānta jina vītarāga! Dātā jaga mēm akṣaya-virāma ।

Hē rānīlā kē ṛṣabhadēva! Caraṇōm mēm hō śata-śata praṇāma ॥

Hē kṛpāsindhu karuṇānidhāna, jīvana mēm samatābhāva bharō ।

Ā'ō tiṣṭhō mama antara mēm, hē ādi prabhō! Hē ādi prabhō ॥

Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēva jinēndra! Atra avatara! Avatara! Sanvaṣaṭ (āhvānanam)!

Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēva jinēndra! Atra tiṣṭha! Tiṣṭha! Ṭha! Ṭha! (sthāpanam)!

Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēva jinēndra! Atra mama sannihitō bhava! Bhava! vaṣaṭ! (Sannidhikaraṇam)!

हे देव! हमारे मन के, कलुषित भावों को निर्मल कर दो ।  
अंतर में पावन भक्ति-सुधा, का शीतल निर्मल-जल भर दो ।  
कितने ही जीवन जीकर भी, संतप्त भटकता आया हूँ ।  
जल अर्पित करके चरणों में, प्रभु परम-पदारथ पाया हूँ ।  
हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो ।  
हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ।

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

Hē dēva! Hamārē mana kē, kaluṣita bhāvōṛṅ kō nirmala kara dō |  
 Antara mēm pāvana bhakti-sudhā, kā śītala nirmala-jala bhara dō |  
 Kitanē hī jīvana jīkara bhī, santapta bhaṭakatā āyā hūṁ |  
 Jala arpita karakē caraṇōṛṅ mēm, prabhu parama-padāratha pāyā hūṁ |  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō |

*Om hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā ||1||*

रानीला की पावन माटी में, प्रकट भए जिनवर स्वामी |  
 पग थिरक उठे जय गूँज उठी, जय ऋषभदेव अंतरयामी |  
 चंदन की गंध सुगंध लिए, आताप मिटाने आया हूँ |  
 तेरे चरणों की पूजा से मैं, परम-पदारथ पाया हूँ ||  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो |  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ||

*ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।*

Rānīlā kī pāvana māṭī mēm, prakāṣa bha'e jinavara svāmī |  
 Paga thiraka uṭhē jaya gūṁja uṭhī, jaya ṛṣabhadēva antarayāmī |  
 Candana kī gandha sugandha li'e, ātāpa miṭānē āyā hūṁ |  
 Tērē caraṇōṛṅ kī pūjā sē maim, parama-padāratha pāyā hūṁ ||  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ||

*Om hrīm śrī ṛṣabhadēva jinēndrāya sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā ||2||*

तंदुल कर में लेकर आया, अक्षय विश्वास लिए उर में |  
 श्रद्धा के सुन्दर-भाव जगे, भक्ति के गीत भरे स्वर में ||  
 भव-भव में भटका व्याकुल-मन अक्षय-पद पाने आया हूँ |  
 आदीश्वर! तेरी पूजा से, मैं परम-पदारथ पाया हूँ ||  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो |  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ||

*ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।३।*

Tandula kara mēm lēkara āyā, akṣaya viśvāsa li'e ura mēm |  
 Śrad'dhā kē sundara-bhāva jagē, bhakti kē gīta bharē svara mēm ||  
 Bhava-bhava mēm bhaṭakā vyākula-mana akṣaya-pada pānē āyā hūṁ |  
 Ādīśvara! Tērī pūjā sē, maim parama-padāratha pāyā hūṁ ||  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō |

*Om hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā ||3||*

संसार असार विनश्वर है, फिर भी ये विषय सताते हैं ।  
 चहुँगति के घोर अंधेरे में, भव-प्राणी को भटकाते हैं ॥  
 मम काम-कषाय मिटाने को, ये पुष्प सुगंधित लाया हूँ ।  
 हे ऋषभ! तुम्हारी पूजा से, मैं परम-पदारथ पाया हूँ ॥  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो ।  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ॥

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

Sansāra asāra vinaśvara hai, phira bhī yē viṣaya satātē hairm |  
 Cahuṅgati kē ghōra andhērē mēm, bhava-prāṇī kō bhaṭakātē hairm ||  
 Mama kāma-kaṣāya miṭānē kō, yē puṣpa sugandhita lāyā hūṁ |  
 Hē ṛṣabha! Tumhārī pūjā sē, mairm parama-padāratha pāyā hūṁ ||  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṅḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ||

Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā ||4||

अगणित व्यंजन खा लेने पर, भी मिटी न मन की अभिलाषा ।  
 ये क्षुधा-वेदनी कर्मों की, कैसी है जिनवर परिभाषा ॥  
 हो जन्म-जन्म की क्षुधा शांत, नैवेद्य भावना लाया हूँ ।  
 आदीश्वर! तेरे चरणों में, शाश्वत-सुख पाने आया हूँ ॥  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो ।  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ॥

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

Aganīta vyañjana khā lēnē para, bhī miṭī na mana kī abhilāṣā |  
 Yē kṣudhā-vēdanī karmōm kī, kaisī hai jinavara paribhāṣā ||  
 Hō janma-janma kī kṣudhā śānta, naivēdya bhāvanā lāyā hūṁ |  
 Ādīśvara! Tērē caraṇōm mēm, śāśvata-sukha pānē āyā hūṁ ||  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṅḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ||

Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyaṁ nirvapāmīti svāhā ||5||

है मोह-तिमिर का अंधकार, अंतर में दीप जलाऊँगा ।  
 भव-बंध कटे आलोक जगे, भावों की ज्योति जगाऊँगा ।  
 यह दीप समर्पण करके मैं, मिथ्यात्व मिटाने आया हूँ ।  
 आदीश्वर! तेरे चरणों में, शाश्वत-सुख पाने आया हूँ ॥  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो ।  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ॥

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Hai mōha-timira kā andhakāra, antara mēm dīpa jalā'ūṁgā ।  
 Bhava-bandha kaṭē ālōka jagē, bhāvōm kī jyōti jagā'ūṁgā ।  
 Yaha dīpa samarpaṇa karakē mairṁ, mithyātva miṭānē āyā hūṁ ।  
 Ādīśvara! Tērē caraṇōm mēm, śāśvata-sukha pānē āyā hūṁ ।  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō ।  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ।

Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṁ nirvapāmīti svāhā ॥6॥

भोगों में ऐसा भ्रमित रहा, पल भर स्थिर नहीं हो पाया ।  
 मिथ्या-मति से भव-भव घूमा, समता रस पान न कर पाया ।  
 यह धूप दहन करके भगवन्, भव-कर्म जलाने आया हूँ ।  
 आदीश्वर तेरे चरणों में, शाश्वत-सुख पाने आया हूँ ॥  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो ।  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ॥

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Bhōgōm mēm aisā bhramita rahā, pala bhara sthira nahīm hō pāyā ।  
 Mithyā-mati sē bhava-bhava ghūmā, samatā rasa pāna na kara pāyā ।  
 Yaha dhūpa dahana karakē bhagavan, bhava-karma jalānē āyā hūṁ ।  
 Ādīśvara tērē caraṇōm mēm, śāśvata-sukha pānē āyā hūṁ ।  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō ।  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ।

Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā ॥7॥

फल अर्पित कर फल पाऊँगा, फल मोक्ष-महाफलदायी है ।  
 फल से ही शुभ-जीवन मिलता, निष्फल-जीवन दुःखदायी है ॥  
 फल-अंजु समर्पण करके मैं, वरदान मुक्ति का पाऊँगा ।  
 चरणों की पूजा से जिनेन्द्र, फिर परम-पदारथ पाऊँगा ॥  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो ।  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ॥

ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Phala arpita kara phala pā'ūṁgā, phala mōkṣa-mahāphaladāyī hai |  
 Phala sē hī śubha-jīvana milatā, niṣphala-jīvana du:Khadāyī hai ||  
 Phala-añju samarpaṇa karakē mair̄n, varadāna mukti kā pā'ūṁgā |  
 Caraṇōm kī pūjā sē jinēndra, phira parama-padāratha pā'ūṁgā ||  
 Hē atiśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ||

*Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya mōkṣaphala-prāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā ||8||*

मन और वचन, हे वीतराग प्रभु! अष्ट-द्रव्य से अर्घ्य बना |  
 पावन तन-मन अरु भाव शुद्ध, चरणों में अर्पित नेह बढ़ा ||  
 होगा अनंत-सुख प्राप्त मुझे, विश्वास हृदय में लाया हूँ |  
 तेरे चरणों की पूजा से, मैं परम-पदारथ पाया हूँ ||  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो |  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ||

*ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवजिनेन्द्राय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१।*

Mana aura vacana, hē vītarāga prabhu! Aṣṭa-dravya sē arghya banā |  
 Pāvana tana-mana aru bhāva śud'dha, caraṇōm mēm arpita nēha baṛhā ||  
 Hōgā ananta-sukha prāpta mujhē, viśvāsa hṛdaya mēm lāyā hūṁ |  
 Tērē caraṇōm kī pūjā sē, mair̄n parama-padāratha pāyā hūṁ ||  
 Hē atiśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ||

*Ōm hrīm śrī ṛṣabhadēvajinēndrāya anarghyapada-prāptayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā ||9||*

आसोज-सुदी-दशमी के दिन, रानीला-वासी धन्य हुए |  
 प्रमुदित हों जय-जयकार करें, जब आदि प्रभु जी प्रकट भये |  
 चहुँदिश से भक्तजन आकर के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं |  
 दुख रोगशोक भय सब तजकर, निजजीवन सफल बनाते हैं ||  
 हे अतिशयकारी ऋषभदेव! मेरे अंतर में वास करो |  
 हे महिमा-मंडित वीतराग! जीवन में पुण्य-प्रकाश भरो ||

*ॐ ह्रीं श्री देवाधिदेव भगवान ऋषभदेव आसौज शुक्ल दशमी को चौबीस भगवान सहित प्रगटे, तिन्हें अर्घ्य  
 निर्वपामीति स्वाहा ।१०।*

Āsōja-sudī-daśamī kē dina, rānīlā-vāsī dhan'ya hu'ē |  
 Pramudita hōm jaya-jayakāra karēm, jaba ādi prabhu jī prakāṣa bhayē |  
 Cahum̐diśa sē bhaktajana ākara kē caraṇōm mēm arghya caṛhātē hair̐m |  
 Dukha rōgaśōka bhaya saba tajakara, nijajīvana saphala banātē hair̐m ||  
 Hē atīśayakārī ṛṣabhadēva! Mērē antara mēm vāsa karō |  
 Hē mahimā-maṇḍita vītarāga! Jīvana mēm puṇya-prakāśa bharō ||

Ōm hrīm śrī dēvādhidēva bhagavāna ṛṣabhadēva āsauja śukla daśamī kō caubīsa bhagavāna sahita  
 pragaṭē, tinhēm arghyam nirvapāmīti svāhā ||10||

## पंचकल्याणक-अर्घ्यावली Pañcakalyāṇaka-Arghyāvalī

(दोहा)

(Dōhā)

अवधिज्ञान से इन्द्र ने, लिया हृदय में जान |  
 देव अयोध्या को चले, पूजें गर्भ-कल्याण ||  
 Avadhijñāna sē indra nē, liyā hṛdaya mēm jāna |  
 Dēva ayōdhyā kō calē, pūjēr̐m garbha-kalyāṇa ||

(गीता छन्द)

(Gītā chanda)

मरुदेवी माँ के महल, मंगलाचार सखियाँ गा रहीं |  
 गरिमा अयोध्यानगर की, लख चाँदनी शरमा रही ||  
 रत्नों की वरषा हो रही, नृप-नाभि हर्षित हो रहे |  
 जिनराज मंगल-जन्म के, शुभ-चिह्न अंकित हो रहे ||

ॐ ह्रीं आषाढकृष्ण-द्वितीयायां गर्भमंगल-मंडिताय श्री आदिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

Marudēvī māṁ kē mahala, maṅgalācāra sakhiyāṁ gā rahīr̐m |  
 Garimā ayōdhyānagara kī, lakha cāṁdanī śaramā rahī ||  
 Ratnōm̐ kī varaṣā hō rahī, nṛpa-nābhi harṣita hō rahē |  
 Jinarāja maṅgala-janma kē, śubha-cihna aṅkita hō rahē ||

Ōm hrīm āṣāḥakṛṣṇa-dvītīyāyām garbhamaṅgala-maṇḍitāya śrī ādināthajinēndrāya arghyam  
 nirvapāmīti svāhā ||1||

नगर अयोध्या में हुआ, आदि-प्रभु अवतार ।  
हर देहरी दीपावली, घर-घर मंगलाचार ॥  
जब प्रथम तीर्थकर ऋषभ की, सृष्टि में जय-जय-जय हुई ।  
शचि बाल-जिनवर छवि निरखति, मुदित मन हर्षित हुई ॥  
सौधर्म प्रभु के जन्म-मंगल, का सुयश गाने लगा ।  
आनंदमय अनुभूति की, रस-वृष्टि बरसाने लगा ॥  
ॐ ह्रीं चैत्रकृष्ण-नवम्यां जन्ममंगल-मंडिताय श्री आदिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Nagara ayōdhyā mēm hu'a, ādi-prabhu avatāra |  
Hara dēharī dīpāvalī, ghara-ghara maṅgalācāra ||  
Jaba prathama tīrthaṅkara ṛṣabha kī, sṛṣṭi mēm jaya-jaya-jaya hur'i |  
Śaci bāla-jinavara chavi nirakhati, mudita mana harṣita hur'i ||  
Saudharma prabhu kē janma-maṅgala, kā suyaśa gānē lagā |  
Ānandamaya anubhūti kī, rasa-vṛṣṭi barasānē lagā ||  
Om hrīm caitrakṛṣṇa-navamyām janmamaṅgala-maṅḍitāya śrī ādināthajinēndrāya arghya nirvapāmīti  
svāhā. ||2||

अंत देख नीलांजना का, जागृत हुआ विराग ।  
चले सम्पदा तज श्रमण, राज-काज सब त्याग ॥  
वैराग्य की आई घड़ी, जिन-ऋषभ जब वन को चले ।  
कंठों से जय-जयकार गूँजी, साधना-दीपक जले ॥  
षट्-मास बीते वन में, तप का प्रबल-साम्राज्य था ।  
पशु-पक्षियों की भावना में, भी विरक्ति-विभाव था ॥  
ॐ ह्रीं चैत्रकृष्ण-नवम्यां तपोमंगल-मंडिताय श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Anta dēkha nīlāñjanā kā, jāgrta hu'a virāga |  
Calē sampadā taja śramaṇa, rāja-kāja saba tyāga ||  
Vairāgya kī ār'i gharī, jina-ṛṣabha jaba vana kō calē |  
Kaṅṭhōm sē jaya-jayakāra gūṁjī, sādhanā-dīpaka jalē ||  
Ṣaṭ-māsa bītē vana mēm, tapa kā prabala-sāmrājya thā |  
Paśu-pakṣiyōm kī bhāvanā mēm, bhī virakti-vibhāva thā ||  
Om hrīm caitrakṛṣṇa-navamyām tapōmaṅgala-maṅḍitāya śrī ādināthajinēndrāya arghyam nirvapāmīti  
svāhā ||3||

तभी ज्ञान-दीपक जले, धवल हुआ भूलोक ।  
कण-कण में विचरित हुआ, दिवा-दिव्य आलोक ॥  
कैवल्य की किरणें जगीं, निर्झर स्वयं झरने लगे ।  
अरिहंत-जिन आराधना, सुर-असुर सब करने लगे ॥  
वाणी में जनकल्याण का, सत्यं-शिवं संदेश था ।

ये सकल अर्हन्त-परमात्मा, न राग था न द्वेष था ॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्ण-एकादश्यां केवलज्ञान-मंडिताय श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

Tabhī jñāna-dīpaka jalē, dhavala hu'ā bhūlōka |

Kaṇa-kaṇa mēm vicarita hu'ā, divā-divya ālōka ||

Kaivalya kī kiraṇēm jagīm, nirjhara svayaṁ jharanē lagē |

Arihanta-jina ārādhana, sura-asura saba karanē lagē ||

Vāṇī mēm janakalyāṇa kā, satyaṁ-śivaṁ sandēśa thā |

Yē sakala ar'hanta-paramātmā, na rāga thā na dvēṣa thā ||

Om hrīm phālgunakṛṣṇa-ēkādaśyām kēvalajñāna-maṇḍitāya śrīādīnāthajinēndrāya arghyaṁ  
nirvapāmīti svāhā ||4||

बढ़े मुक्तिपथ पर चरण, गिरि-कैलाश सुथान ।

ऋषभ-जिनेश्वर ने जहाँ, पाया पद-निर्वाण ॥

हिम-सा प्रखर कैलाशगिरि, छू चरण पावन हो गया ।

जिन-आदि का वह सत्य शाश्वत-स्वर सनातन हो गया ॥

संसार को कर्तव्य-पथ का, ज्ञान विकसित हो गया ।

जिन-आदिब्रह्मा-आदिशिव, अविकार-जिनवर हो गया ॥

ॐ ह्रीं माघकृष्ण-चतुर्दश्यां मोक्षमंगल-मंडिताय श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

Barhē muktīpatha para caraṇa, giri-kailāśa suthāna |

R̥ṣabha-jinēśvara nē jahāṁ, pāyā pada-nirvāṇa ||

Hima-sā prakhara kailāśagiri, chū caraṇa pāvana hō gayā |

Jina-ādi kā vaha satya śāśvata-svara sanātana hō gayā ||

Sansāra kō karttavya-patha kā, jñāna vikaṣita hō gayā |

Jina-ādībrahmā-ādīśiva, avikāra-jinavara hō gayā ||

Om hrīm māghakṛṣṇa-caturdaśyām mōkṣamaṅgala-maṇḍitāya śrīādīnāthajinēndrāya arghyaṁ  
nirvapāmīti svāhā ||5||

## जयमाला Jayamala

(दोहा)

नाभिराय-नंदन सदा, वंदन करूँ त्रिकाल ।  
भव-भव की पीड़ा हरो, मरुदेवी के लाल ॥

(Dōhā)

Nābhirāya-nandana sadā, vandana karūṁ trikāla ।  
Bhava-bhava kī pīṛā harō, marudēvī kē lāla ॥

(चौबोला छन्द)

हे जन-जीवन के युग-दृष्टा, समतादाता जिन-प्रथम देव ।  
संस्कृति-सृष्टि के उन्नायक, पुरुषार्थ साध्य-साधन-विवेक ॥  
जिन-ऋषभ तुम्हारी वाणी का, सर्वत्र गूँजता चमत्कार ।  
जन-जन जीवन के सूत्रधार, प्रणमें जिन-चरणों बार-बार ॥  
हे आदि-विधाता तुमने ही, असि मसि कृषि का वरदान दिया ।  
वाणिज्य शिल्प विद्या-विवेक, जीवन का अनुपम-ज्ञान दिया ॥  
हे नाभिराय के पुत्ररत्न, माँ मरुदेवी के मुदित भाल ।  
हे प्रथम जिनेश्वर तीर्थकर, मुक्तिपथ के पंथी विशाल ॥  
हे तीन लोक के जननायक, सर्वज्ञदेव जिन वीतराग ।  
हे मानवता के मुक्तिदूत, अंतर में उभरे अमर राग ॥  
हित-मित वचनों को हे जिनेश! नियति सदा दोहरायेगी ।  
हे परमपिता! हे परम ईश! यह प्रकृति सदा गुण गाएगी ॥  
रानीला की माटी में जिन-प्रतिमा प्रगटी अतिशयकारी ।  
आकर्षक सुन्दर वीतराग-छवि, लगती है मन को प्यारी ॥  
प्रस्तर में जैसे शिल्पी ने, छैनी से प्राण फूँक डाले ।  
तेईस तीर्थकर साथ बीच में, ऋषभ जगत् के रखवाले ॥  
इतना प्रभाव! दर्शन करके, सब पाप-कर्म कट जाते हैं ।  
जो भी रानीला जाते हैं, मनवाँछित-फल पा जाते हैं ॥  
सम्पूर्ण देश में ऐसी मन-मोहक प्रतिमा कहीं ना पाती है ।  
थोड़ा-सा ध्यान लगाते ही, वो अपने आप बुलाती है ॥

(Caubōlā chanda)

Hē jana-jīvana kē yuga-dṛṣṭā, samatādātā jina-prathama dēva |  
 Sanskr̥ti-sṛṣṭi kē unnāyaka, puruṣārtha sādhyā-sādhana-vivēka ||  
 Jina-ṛṣabha tumhārī vāṇī kā, sarvatra gūṁjātā camatkāra |  
 Jana-jana jīvana kē sūtradhāra, praṇamēm jina-caranōm bāra-bāra ||  
 Hē ādi-vidhātā tumanē hī, asi masi kṛṣi kā varadāna diyā |  
 Vāṇijya śilpa vidyā-vivēka, jīvana kā anupama-jñāna diyā ||  
 Hē nābhiraīya kē putraratna, māṁ marudēvī kē mudita bhāla |  
 Hē prathama jinēśvara tīrthānkara, muktīpatha kē panthī viśāla ||  
 Hē tīna lōka kē jananāyaka, sarvajñadēva jina vītarāga |  
 Hē mānavatā kē muktīdūta, antara mēm ubharē amara rāga ||  
 Hita-mita vacanōm kō hē jinēśa! Niyati sadā dōharāyēgī |  
 Hē paramapitā! Hē parama rīśa! Yaha prakṛti sadā guṇa gā'ēgī ||  
 Rānīlā kī māṭī mēm jina-pratimā pragaṭī atīśayakārī |  
 Ākarṣaka sundara vītarāga-chavi, lagaṭī hai mana kō pyārī ||  
 Prastara mēm jaisē śilpī nē, chainī sē prāṇa phūṁka ḍālē |  
 Tēr'isa tīrthānkara sātha bīca mēm, ṛṣabha jagat kē rakhavālē ||  
 Itanā prabhāva! Darśana karakē, saba pāpa-karma kaṭa jātē hairī |  
 Jō bhī rānīlā jātē hairī, manavāṁchita-phala pā jātē hairī ||  
 Sampūrṇa dēśa mēm aisī mana-mōhaka pratimā kahīm nā pātī hai |  
 Thōrā-sā dhyāna lagaṭē hī, vō apanē āpa bulātī hai ||

(चौपाई छन्द)

प्रथम आदि-जिन आदि-विधाता, कर्मभूमि के ज्ञायक ज्ञाता |  
 दिया सृष्टि को दिव्य-दिवाकर, ज्ञानपुंज हे! ज्ञानसुधाकर ||  
 धरम-धरा के जन-उन्नायक, मोक्ष-पंथ के शिव जिन-नायक |  
 प्रथम तीर्थस्वामी तीर्थकर, नमूँ नमूँ जिन ऋषभ-जिनेश्वर ||  
 पावन पुण्यभूमि हरियाणा, रानीला है ग्राम सुहाना |  
 प्रीति परस्पर जन-मन-भावन, जहाँ बन गई माटी चंदन ||  
 चमत्कार था विस्मयकारी, चकित रह गए सब नर-नारी |  
 उदित हुआ माटी में सोना, जैसे सुन्दर पुष्प सलौना ||  
 प्रगट भये जिन अतिशयकारी, बाल-चन्द्रमा-सी छवि प्यारी |  
 नृत्य करें जन नंदन-कानन, हर्षित इन्द्रों के इन्द्रासन ||  
 शोर मच गया हर जन-मन में, गूँजी जय-जयकार भुवन में |  
 हर जन-मन दर्शन को आया, मनचाहा फल उसने पाया ||  
 जो भी नियमपूर्वक ध्यावे, रोग-शोक-संकट कट जावे |

तारा 'प्रेमी' दास तुम्हारा, जन्म-जरा से हो निस्तारा ॥

(Caupār'i chanda)

Prathama ādi-jina ādi-vidhātā, karmabhūmi kē jñāyaka jñātā |  
 Diyā sṛṣṭi kō divya-divākara, jñānapuñja hē! Jñānasudhākara ॥  
 Dharama-dharā kē jana-unnāyaka, mōkṣa-pantha kē śiva jina-nāyaka |  
 Prathama tīrthasvāmī tīrthaṅkara, namūṁ namūṁ jina ṛṣabha-jinēśvara ॥  
 Pāvana puṇyabhūmi hariyāṇā, rānīlā hai grāma suhānā |  
 Pṛīti paraspara jana-mana-bhāvana, jahāṁ bana gar'i māṭi candana ॥  
 Camatkāra thā vismayakārī, cakita raha ga'ē saba nara-nārī |  
 Uditā hu'ā māṭi mēm sōnā, jaisē sundara puṣpa salaunā |  
 Pragaṭa bhayē jina atīśayakārī, bāla-candramā-sī chavi pyārī |  
 Nṛtya karēm jana nandana-kānana, harṣita indrōṁ kē indrāsana |  
 Śōra maca gayā hara jana-mana mēm, gūṁjī jaya-jayakāra bhuvana mēm |  
 Hara jana-mana darśana kō āyā, manacāhā phala usanē pāyā ॥  
 Jō bhī niyamapūrvaka dhyāvē, rōga-śōka-saṅkaṭa kaṭa jāvē |  
 Tārā'prēmī' dāsa tumhārā, janma-jarā sē hō nistārā ॥

(धत्तानंद)

आदीश्वर स्वामी, त्रिभुवननामी, कोटि नमामि जगख्याता |  
 हे पाप-निवारक, जन-उद्धारक, शिवमग-धारक पथ-ज्ञाता ॥

ॐ ह्रीं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय जयमाला-पूर्णाघर्यं निर्वपामीति स्वाहा।

(Dhattānanda)

Ādīśvara svāmī, tribhuvanāmī, kōṭi namāmi jagakhyātā |  
 Hē pāpa-nivāraka, jana-ud'dhāraka, śivamaga-dhāraka patha-jñātā ॥

Om hrīm śrī ādināthajinēndrāya jayamālā-pūrṇāghryaṁ nirvapāmīti svāhā |

(दोहा)

ऋषभ-चरण वन्दन करें, नित-प्रति सकल समाज |  
 भक्ति-भाव आराधना, सिद्ध होंय सब काज ॥

Dōhā

Ṛṣabha-caraṇa vandana karēm, nita-prati sakala samāja |  
 Bhakti-bhāva ārādhanā, sid'dha hōnya saba kāja ॥

॥इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत्॥

॥ Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipēt ॥

\*\*\*\*\*